



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 735 राँची, सोमवार,

30 जुलाई, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

अधिसूचना

25 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-68/2018-1071 (HRMS)-- श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), कार्यपालक दंडाधिकारी, चतरा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ASHUTOSH KUAMR (JHK/JAS/240)	श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), कार्यपालक दंडाधिकारी, चतरा को निलंबित किया जाता है.	25/07/2018

**विवरण:**

कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2247, दिनांक 2 जुलाई, 2018 द्वारा श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध जिला कल्याण शाखा, चतरा में वित्तीय अनियमितता बरतने, गबन तथा सरकारी राशि का अवैध अंतरण करने सम्बन्धी आरोप प्रतिवेदित किये गए हैं.

2 . उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा, जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०- 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----